



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

मई 09, 2025

संख्या 19

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	मई 03	अप्रैल 25	मई 02	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3537755	3760633	3774272	13639	236517
1.1 संचलन में नोट	3537744	3760619	3774260	13641	236517
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	14	11	-2	0
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	961717	947351	933070	-14281	-28646
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8810	8398	8423	24	-387
2.6 अन्य बैंक	55022	52864	52767	-97	-2254
2.7 अन्य	571787	474487	506132	31645	-65655
3 अन्य देयताएं	1770333	2331242	2269533	-61709	499200
कुल देयताएं / आस्तियां	6905566	7575119	7544340	-30779	638774
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4746786	4993343	4943657	-49686	196871
2 सोना	457902	720785	691478	-29307	233576
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1357964	1680428	1702840	22412	344876
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	19755	22324	38480	16156	18726
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	171359	23088	23458	370	-147901
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	143330	119274	124409	5135	-18921
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	6407	13813	17954	4141	11547

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	मई 02, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5797792	686064	-81416	-2065	85652	17737	444552	44474
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4911665	581177	-49330	514	60831	13619	204450	17016
1.2 स्वर्ण	691478	81820	-29307	-2545	23316	3643	233576	26940
1.3 विशेष आहरण अधिकार	156841	18558	-1975	-30	1552	389	6230	508
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	37807	4509	-803	-3	-48	85	296	10

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

मई 02, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 951938 करोड़	2025													
	अप्रैल 19	अप्रैल 20	अप्रैल 21	अप्रैल 22	अप्रैल 23	अप्रैल 24	अप्रैल 25	अप्रैल 26	अप्रैल 27	अप्रैल 28	अप्रैल 29	अप्रैल 30	मई 01	मई 02
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	981190	980630	968567	982528	961529	949257	954371	948528	946446	936260	953154	938624	929979	940028
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	103.1	103.0	101.7	103.2	101.0	99.7	100.3	99.6	99.4	98.4	100.1	98.6	97.7	98.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	अप्रैल 18, 2025 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	346509	-4565	-1682	37095	50867	53720
1.2 बैंकों से उधार	105133	-620	-10343	-6842	134356	-66952
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	23925	860	2325	-5991	16295	-50852
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22860857 (22802325)	-254836	278168	280256	2441585 (2335603)	2107463 (2154913)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	1.4	1.2	13.3 (12.8)	10.2 (10.4)
2.1.1 मांग	2637202	-144032	18093	-60846	322930	175256
2.1.2 मीयादी	20223655	-110804	260074	341103	2118655	1932207
2.2 उधारियां	868605	-51991	-2604	-46643	316822	93267
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1018942	-2939	-40180	-42689	157792	121694
3 रिज़र्व बैंक से उधार	24763	-35268	-137377	-286703	48789	-60576
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	990981	-16781	23640	26692	109049	-53575
4.1 उपलब्ध नकदी	81713	4287	10888	-162	3026	-18608
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	909269	-21068	12753	26854	106023	-34967
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	238145	8163	-10311	22343	-8730	50129
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	22294	-10887	3887	-3544	-5158	6052
5.3 बैंकों को अग्रिम	40267	-1460	-905	763	8487	-7196
5.4 अन्य आस्तियां	71217	1894	-7981	3864	38200	-36226
6 निवेश	6692608 (6644842)	28217	41652	-5320	702725 (615421)	544397 (583935)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	0.7	-0.1	12.9 (11.3)	8.9 (9.6)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6691992	28378	41491	-5306	702422	544891
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	616	-161	161	-14	303	-494
7 बैंक ऋण	18186759 (17774269)	-214574	59632	-57213	2632350 (2111531)	1694963 (1803291)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.2	0.4	-0.3	19.0 (15.2)	10.3 (11.3)
7 क.1 खाद्य ऋण	32126	2769	-4991	-4406	-3202	14036
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18154634	-217343	64623	-52808	2635552	1680927
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17845126	-200026	43117	-64726	2575813	1667706
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79493	-2857	4568	4530	23067	14458
7 ख.3 भुनाए गए	224770	-9844	11974	3710	41957	15438
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	14727	-1155	142	-395	-2184	-1827
7 ख.5 भुनाए गए	22644	-691	-168	-333	-6303	-812

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	मई 03	अप्रैल 04	अप्रैल 11	अप्रैल 18	अप्रैल 25	मई 02
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.05	4.37	..	4.35	..	..
	(5.02)	(4.36)	..	(4.33)	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	77.34	78.01	..	77.95	..	..
	(79.43)	(79.61)	..	(79.55)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	45.47	30.32	..	-17.19	..	..
	(43.09)	(29.41)	..	(-20.41)	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.45	28.70	..	29.14	..	..
	(29.71)	(28.83)	..	(29.28)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	25.67	-6.27	..	-1.89	..	..
	(24.64)	(-6.27)	..	(-1.90)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.25	6.00	6.00	6.00	6.00
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	6.00	5.75	5.75	5.75	5.75
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25
बैंक दर	6.75	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.30
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.15	6.00/7.15
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/2.75	2.70/2.75	2.70/2.75
मांग मुद्रा दर (भारत-औसत)	6.59	6.09	6.00	5.85	5.86	5.89
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.00	6.30	6.03	5.94	5.90	5.90
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.04	6.29	6.10	6.02	5.95	5.93
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.08	6.30	6.09	6.02	5.95	5.91
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.12	6.53	6.48	6.41	6.40	6.32
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.38	85.23	86.14	85.57	85.58	83.86
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.50	94.34	97.11	97.26	97.12	94.95
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.19	3.03	2.59	2.50	2.57	2.65
3-माह	1.27	2.54	2.31	2.26	2.34	2.40
6-माह	1.38	2.39	2.19	2.11	2.15	2.21

*प्रेस विज्ञापन संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया				निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
	2025		पछवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	2025		पछवाड़ा		2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 21	अप्रैल 18	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27214355 (27273801)	27572145 (27630677)	-211765 (-213099)	-0.8 (-0.8)	322357	1.3	357790 (356876)	1.3 (1.3)	2470776	10.9	2418169 (2370720)	9.6 (9.4)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3620845	3693751	43680	1.2	43979	1.3	72907	2.0	107768	3.2	239497	6.9
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2781253	-144892	-5.0	19841	0.8	-58770	-2.1	324964	14.2	174523	6.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	20993392 (21051924)	-111095 (-112429)	-0.5 (-0.5)	266722	1.4	350330 (349416)	1.7 (1.7)	2020000	11.9	1986752 (1939302)	10.5 (10.1)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	110426	103750	542	0.5	-8184	-8.7	-6676	-6.0	18043	26.4	17398	20.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8135829 (8183590)	8575266 (8623032)	73954 (73953)	0.9 (0.9)	77027	1.0	439438 (439442)	5.4 (5.4)	423496	5.9	986223 (946685)	13.0 (12.3)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1180870	1626509	49119		28416		445639		-198470		404880	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6948757 (6996523)	24835 (24834)	0.4 (0.4)	48611	0.8	-6202 (-6197)	-0.1 (-0.1)	621967	10.8	581344 (541805)	9.1 (8.4)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18644339 (19065706)	18582399 (18994888)	-211628 (-215740)	-1.1 (-1.1)	57245	0.3	-61941 (-70818)	-0.3 (-0.4)	2117810	14.5	1853008 (1744679)	11.1 (10.1)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	35823	19280	-2258		-3602		-16543		-10988		8475	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18563119 (18975609)	-209370 (-213482)	-1.1 (-1.1)	60847	0.4	-45397 (-54274)	-0.2 (-0.3)	2128797	14.6	1844533 (1736204)	11.0 (10.1)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5977361	6169394	90342	1.5	-46743	-0.8	192032	3.2	567028	11.4	648633	11.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36306	36632	0	0	0	0.0	326	0.9	3146	10.4	3200	9.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	5579480 (5989161)	5791545 (6193268)	164432 (161654)	2.9 (2.7)	-234827	-4.7	212065 (204107)	3.8 (3.4)	640704	15.7	1072895 (972478)	22.7 (18.6)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2159098	2308158	102754	4.7	-37145	-2.1	149060	6.9	138267	8.6	555169	31.7

*: 21 मार्च 2025 से संबंधित।

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया				निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	2025		सप्ताह		2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	मई 02	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836336	4911504	1860	0.0	54523	1.2	75168	1.6	243383	5.5	225535	4.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720468	3810892	13641	0.4	59915	1.7	90424	2.4	95444	2.7	239516	6.7
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	994260	-14353	-1.4	99	0.0	-9502	-0.9	127109	14.1	-31288	-3.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	106352	2572	2.5	-5491	-5.8	-5754	-5.1	20830	30.5	17306	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1652602	70861		-54706		264199		-265692		514096	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1614165	54705		-67861		252002		-269992		495370	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-155813	-55878		125808		-167231		141472		-235474	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-176575	-54658		128942		-149526		152398		-244964	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5635295	-78876	-1.4	-37477	-0.7	109223	2.0	494599	10.5	431689	8.3
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	36632			200	0.6	0	0.0	3151	10.3	3000	8.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2126189	2257212	-65753	-2.8	-20698	-1.2	131023	6.2	130146	7.9	487776	27.6

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4				5	6	
अप्रैल 28, 2025	-	-	4998	-	3190	132959	-1330	-	-	-126101
अप्रैल 29, 2025	-	-	5901	-	716	121701	8	-	-	-115076
अप्रैल 30, 2025	-	-	14952	-	8471	187714	770	-	20000	-143521
मई 01, 2025	-	-	-	-	14589	181779	-	-	-	-167190
मई 02, 2025	-	-	6380	-	568	200035	-	-	-	-193087
मई 03, 2025	-	-	-	-	474	171056	-	-	-	-170582
मई 04, 2025	-	-	-	-	29	162216	-	-	-	-162187

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	फरवरी	मार्च	फरवरी	मार्च	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.8	185.8	192.5	192.0	-0.3	3.3	3.3
1.1 ग्रामीण	187.4	187.8	194.5	193.9	-0.3	3.2	3.2
1.2 शहरी	184.0	183.6	190.1	189.9	-0.1	3.4	3.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.2	138.9	142.8	143.0	0.1	3.0	3.0
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.2	151.4	154.8	154.5	-0.2	2.0	2.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	181.5	183.2	186.6	184.6	-1.1	0.8	0.8
3.2 ईंधन और बिजली	154.9	152.1	153.8	152.4	-0.9	0.2	0.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	139.8	140.1	143.8	144.4	0.4	3.1	3.1

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 18, 2025	518760	7213	6.43 - 7.37
मई 02, 2025	513000	9186	6.35 - 7.22

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 15, 2025	521558	91006	6.31 - 11.65
अप्रैल 30, 2025	545587	72419	6.26 - 13.00

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	मई 03, 2024	अप्रैल 25, 2025	मई 02, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	19039	26638	26810
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	6543	2082	9757
3 त्रिपक्षीय रेपो	631845	706111	816698
4 बाजार रेपो	674219	626465	769154
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4333	6915	6641

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

मई 02, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	15165	30222	67479	220779
182-दिवसीय	45664	66469	9688	216688
364-दिवसीय	67424	85297	42833	349833
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (मई 02, 2025 तक)	2024-25 (मई 03, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (मई 02, 2025 तक)	2024-25 (मई 03, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	125000	124000	1400697	125000	124000	1039275
2. राज्य सरकारें	53870	51200	1073310	33530	32899	753345

WSS का लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित काष्ठमालिथ WSS हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) म उपघलढ है।

समथ श्रुखिला आंक ष इंटरनषट पर <https://data.rbi.org.in/> म उपघलढ है।

श्री जी. वि. नथनएल, निदषशक दलरा भारतीथ रि वथबैंक, शहीद भगितसंह मगल, फोटल, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं पकारलशित।